

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-4

संख्या-5/2018/1128/दो-4-2017-32(2)/2015टी0सी0-II

लखनऊ: दिनांक: 26 मार्च, 2018

विज्ञप्ति/नियुक्ति

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट पिटीशन संख्या-49090/2017 अरूण क्रांति यशोदास बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-10-2017 (यथासंशोधित 31-10-2017) के अनुपालन में, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा आयोजित उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2015 के आधार पर चयनित अभ्यर्थी श्री अरूण क्रांति यशोदास (अनुक्रमांक-009978) पुत्र-श्री रामदास, निवासी-ग्राम-कुंवरपुर, पोस्ट-बड़ागांव, थाना-पुवायां, जनपद-शाहजहांपुर-242401 को वेतनमान रुपये-27700-770-35090-920-40450-1080-44770 में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने की इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उक्त नियुक्ति श्री यशोदास के विरुद्ध जनपद शाहजहांपुर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या-401ए/2007 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगी तथा यदि भविष्य में मा0 न्यायालय द्वारा उक्त केस में श्री अरूण क्रांति यशोदास को दोषी पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध यथाविधि कार्यवाही की जायेगी।

2- श्री अरूण क्रांति यशोदास की तैनाती के आदेश अलग से मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जायेंगे तथा उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

दीपक त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव

संख्या-5/2018/1128(1) दो-4-2017-32(2)/2015 टी0सी0-II, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- (2) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु भरे गये प्रपत्रों (संलग्नकों सहित) एवं चिकित्सा परिषद की स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट्स मूलरूप में संलग्न कर इस मन्तव्य के साथ प्रेषित कि यदि उक्त अभ्यर्थी मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा में बिना किसी समुचित कारणों के अपना योगदान सेवा में प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उसकी स्थिति से शासन को अविलम्ब अवगत कराया जाय। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी की तैनाती के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के आदेशों की प्रति तथा अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि/समय आदि की सूचना भी शासन को कृपया शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- (3) अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0, शिविर कार्यालय, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-36/02/ई-2/2015-16, दिनांक 11 अगस्त, 2016 के सन्दर्भ में।
- (5) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र०, इलाहाबाद को उ०प्र० गजट के आगामी हिन्दी तथा उर्दू अंक में प्रकाशनार्थ।
- (6) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ०प्र० शासन।
- (7) जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया जनपद शाहजहांपुर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या-401ए/2007 के निर्णय से यथासमय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
- (8) निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ०प्र०, गोमतीनगर, लखनऊ।
- (9) सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उनकी यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। अभ्यर्थी अपनी तैनाती के सम्बन्ध में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जाने वाले तैनाती आदेशों के अनुसार मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा के अन्दर अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। यदि बिना समुचित कारणों के वह मा० न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा ऐसी स्थिति में इस सेवा में नियुक्ति के लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की इच्छुक नहीं है तो उसकी लिखित सूचना महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को तत्काल प्रेषित करें। उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर उनकी नियुक्ति अस्थायी रूप से इस प्रतिबन्ध के साथ की जा रही है कि उन्हें निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ०प्र०, लखनऊ के निर्देश प्राप्त होने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

अभ्यर्थी जब तक सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं हो जाते हैं तब तक वह अस्थायी कर्मचारियों पर लागू अधिसूचना संख्या-20/1/74, नियुक्ति-3, दिनांक 11-6-1975 में दी गयी शर्तों के अधीन रहेंगी।

अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

- (10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
अनु सचिव

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।